

Class – 1 ( Term- 2 )

Sub. - हिंदी

अध्याय – 11 पेड़ पड़े बीमार

बातों - बातों में

1. अगर सारे पेड़ पौधे बीमार पड़ जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर - अगर सारे पेड़ पौधे बीमार पड़ जाए तो हमारा पर्यावरण दूषित हो जाएगा । हमें और हमारे पशुओं को फल, फूल, छाया, और भोजन नहीं मिल पाएगी । दूषित हवा को सांस लेने से हम बीमार पड़ जाएंगे।

2. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं ?

उत्तर - पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय - पेड़ नहीं काटना , ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना , जंगलों को आग नहीं लगाना , बचे हुए बोतल के पानी को पौधों पर डालना । नदी नालों पर कचरा नहीं बहाना , प्लास्टिक के सामान उपयोग में नहीं लाना चाहिए ।

3. पेड़ आपकी बातें सुन सकते तो आप उनसे क्या-क्या बातें करते ?

उत्तर- पेड़ यदि मेरी बातें सुनता तो मैं उनसे कहता - मुझे सुंदर-सुंदर फूल और फल देना । और ज्यादा से ज्यादा पशु - पक्षियों को रहने देना ।

कलम की सवारी-

1. पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है ?

उत्तर - पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए खाद और पानी की जरूरत होती है ।

2. आपके विद्यालय में पेड़ लगाओ दिवस मनाया जाता है तो आप क्या-क्या तैयारियां करेंगे ?

उत्तर - मैं अपने साथ आम तथा जामुन के छोटे पौधे लेकर आऊंगा। पौधे लगाने के लिए खुरपी , कुदाल, खाद और पानी का बोतल साथ में लेकर आऊंगा । ( पेड़ जुलाई माह में लगाई जाती है।)

3. दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं।

क . एक दिन पेड़ को क्या हो गया ?

उत्तर – (1) बुखार

ख. बादल अपने साथ क्या लाता है ?

उत्तर – (2) पानी

ग . पशुओं ने पेड़ों को क्या खिलाया ?

उत्तर - (1) खाद

## बार्तें भाषा की

शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को उलटे – पुलटे शब्द कहते हैं, जैसे रात का उलटा शब्द दिन है । इन शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं।

उलटा अर्थ बताने वाले शब्दों पर गोला बनाएं।

| अ. क्र. | शब्द  | उलटे अर्थ वाले शब्द   |
|---------|-------|-----------------------|
| क.      | जीत।  | विजय, पराजय, हार      |
| ख.      | अच्छा | बुरा, मीठा, कड़वा     |
| ग.      | चढ़ना | पकड़ना, छोड़ना, उतरना |
| घ.      | आना   | खाना, पीना, जाना      |
| ङ.      | मिलना | खोना, बिछड़ना, पाना   |

2. उचित विलोम शब्द चुने और उनका वाक्य में प्रयोग करें ।

खुशी का विलोम गम है ।

मुझे किसी बात का गम नहीं ।

तेज का विलोम धीरे है

कछुआ धीरे - धीरे चलता है ।

बीमार का विलोम स्वस्थ है ।

हमें अपने स्वस्थ का ध्यान रखना चाहिए ।

खिलना का विलोम मुरझाना है ।

फूल धूप से मुरझा जाते हैं ।

छाया का विलोम धूप है ।

बच्चों को तेज धूप में नहीं खेलना चाहिए ।

धन्यवाद।

